

Listing Department/ Department of Corporate Relations, The Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, Fax- 022-22722037/39/41/61/3121/22723719 Scrip Code: 532524

Listing Department The National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 51, Fax- 022-26598237/38- 022-26598347/48 Company Code: PTC

Dear Sir/ Madam,

# Sub.: Newspaper advertisement for Extraordinary General Meeting of the Members of the Company ("EGM").

With reference to above cited subject, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published on June 6, 2023 in the newspapers viz. Business Standard Delhi (in English) and Business Standard Delhi (in Hindi) informing about 7<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting scheduled on Wednesday, 28th day of June 2023 along with details of Cut Off Date, Video Conferencing ("VC") facility to the Members of the Company and related matters thereto.

We request you to kindly take the same on your record.

Thanking You,

For PTC India Limited

**Rajiv Maheshwari Company Secretary** FCS- 4998

Enclosures:

- Business Standard Delhi (in English)
- Business Standard Delhi (in Hindi)

# **THE SMART INVESTOR 11**

# **Raging bull: 10x returns in** Did you know? Bank's liability 20 yrs by 269 NSE 500 firms

Goldman Sachs report analyses tenbaggers across 10 mkts, 6,700 stocks

#### PUNEET WADHWA New Delhi, 5 June

ore than half of NSE 500 stocks (269) have given over tenfold (10x) returns in the past two decades, found a recent report by Goldman Sachs that analysed 10 major markets across emerging and developed markets (EM/DM) covering 6,700 stocks.

The report examined the 'tenbaggers' - stocks that generated at least 10x total returns within a rolling fivevear period over two decades.

Some of the prominent ones that comprise these 269 stocks in the Indian context delivering over 10x total returns over a five-year rolling period since 2000, according to Goldman Sachs, include Westlife Foodworld, Bharti Airtel, Adani Total Gas, Patanjali Foods, Larsen & Toubro, BEML, Blue Star, Shree Cement, Lupin, Godrej Industries, Astral Pipes, Adani Hindustan Enterprises. Petroleum Corporation, and Deepak Fertilisers and Petrochemicals.

"These Indian tenbaggers within the NSE 500 basket are the largest proportion of multibaggers among the 10 markets (versus 30 per cent/20 per cent averages for EM/DM)." wrote analysts at Goldman Sachs, led by Timothy Moe, their co-head of Asia macro research and chief Asia-Pacific equity strategist, in a recent note.

There is not one, but six common threads running through these 269 'tenbagger' stocks over 20 years, observes Goldman Sachs, enabling them to significantly outperform peers and the overall markets. These include high realised sales and profit growth rates of these companies; high capital return ratios; mid-/small-cap bias; inexpensive starting valuations; domestic

PATEL AUTO ENGINEERING COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED

REGISTERED OFFICE: PLOT NO R-847/3/1 MIDC, T.T.C. INDUSTRIAL AREA, RABALE,

NAVI MUMBAI MAHARASHTRA 400701

CIN: 1/28920MH1997PTC108001 Email: sify secretarial@silvcorp.com

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS WESTERN REGION, MUMBAI

n the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and

Rule 30(5) (A) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

## MULTIBAGGERS ACROSS MARKETS **SINCE 2003**

COMPANIES WITH TOTAL RETURNS > 10X IN LOCAL CURRENCY WITHIN 5 - YR ROLLING PERIOD



Source: Bloomberg, local indices, Goldman Sachs Investment Research

sector orientation; and high promoter holding.

BSE 200 Index have offered 15-16 per cent annualised returns in local currency, and 12-13 per cent in dollar terms - almost double the 7 per cent offered broader MSCI EM.

by the Morgan Stanley Capital International (MSCI) EM Index. The 20-year dollar annualised return for India has also led major equity markets globally (US, Europe, Japan, period since 2000. and Asian peers), although the US markets have fared better in the recent decade," the report said.

Over the past two decades, about 60 per cent of the current BSE 200 stocks will have markets (the US. Japan. Europe and Australia) on average had only 20 per cent of the stocks delivering multibagger returns," said Goldman Sachs.

Within the 10 markets, it took 52 months (on a median basis) for these 1,500 stocks to reach the 10x threshold, achieving a total return of 16x when they hit peak price levels during their respective fiveat least 10x total returns year (or shorter) outperformwithin a five-year rolling ance window.

In the case of India, it took 54 months on average and the stocks delivered 24x median returns, 1.5x the median across the 10 markets and second highest after Australia, which delivered a slightly higher 25x bagger returns. The four DM median return.

Audio-Visual Means (OAVM)

t is hereby informed to the este

# is 100x annual rent of a locker

Bank branch that has run out of lockers must put you on a waiting list

#### **BINDISHA SARANG & KARTHIK JEROME**

The Reserve Bank of India (RBI) has now set December 31, 2023, as the final deadline for the renewal of bank locker agreements with existing customers. The earlier deadline was January 1.

Banks are urging their customers to complete this formality much before the deadline. State Bank of India and Rank of Baroda have released advisories urging locker holders to sign their revised contracts by June 30.

Here are a few key things customers, including potential ones, should know about bank lockers.

#### Existing relationship not mandatory

Even if you don't have an existing relationship with a bank, you can still make a request for starting a locker account, Adhil Shetty, chief executive officer (CEO), BankBazaar.com, says, "It is not mandatory to have an existing banking relationship with a bank, including a banking account, to avail of its locker facility." However, it is obligatory to complete all the necessary KYC documentation.

#### Tackling availability issues

According to an RBI circular (August 18, 2021), if a branch doesn't have lockers available, it must acknowledge a customer's application, place her on a waiting list, and provide her with a waitlist number.

While most banks, especially public sector ones, offer locker facilities, they may not do so at every branch.

M. Barve, founder, MB Wealth Financial Solutions, says, "Locker availability varies across centres. Some places may have a longer waiting period than others." He suggests checking the bank's website for locker availability across branches. If you desperately need a locker, be flexible regarding the location.

The chances of getting a locker may be higher at a relatively new private-sector bank, than at an old public-sector one.

### PROTOCOL FOR LOCKER NOMINATION

If a sole locker hirer nominates an individual, in case of his/her death, the bank will give the nominee access to the locker after due diligence

In case the locker was hired jointly, in the event of the death of any of the hirers, the bank will give locker access to the survivor(s) and the nominee(s)

If joint locker was rented under a survivorship clause – 'either or survivor', 'anyone or survivor', 'former or survivor', etc - then in the event of one hirer's death, the bank will grant access to the survivor(s), according to terms of the survivorship clause

Besides access, liberty is also given to remove the contents of the locker

#### Fixed deposit requirement

While many banks may insist that you open a fixed deposit (FD) account, the RBI circular forbids banks from tying locker facilities to the placement of FD or any other deposit beyond what the RBI specifically allows. Jay Thacker,

member, Association of Registered Investment Advisors (ARIA), says, "To ensure prompt payment of locker rent, banks are allowed to obtain a term deposit at the time of locker allotment for an amount that would cover three years of rent and the cost of breaking open the locker in case such an eventuality arises."

#### Banks' limited liability

YOUR

MONEY

Banks have a 'duty of care' to prevent any loss due to their negligence. Shetty says, "In case of events like theft, burglary, fire, fraud by an employee, robbery, building collapse, etc., the bank's liability shall be for an amount equivalent to 100 times the annual rent of the safe deposit locker."

However, in the case of a natural disaster (earthquake, flood, thunderstorm, lightning, etc.) or customer negligence, the bank is not liable for any damage or loss of contents.

All they need to do is take appropriate care to protect the locker systems in their premises from such catastrophes.

#### Insure locker contents


Not every high-value item can be secured in a bank locker. Tarun Mathur, chief business officer, general insurance, Policybazaar.com, says, "One must therefore buy adequate home insurance to protect valuables like electronic items, expensive furniture, etc."

Most home insurance policies usually do not extend to the contents of a bank locker.

Hence, customers need to buy a specific policy that covers valuables kept in a bank locker. Kapil Mehta, cofounder, SecureNow, says, "Household insurance that provides cover for jewellery stored in a bank locker is available at a low cost, as the risk of jewellery getting stolen from a bank locker is very low.

#### Appoint a nominee

Barve advises appointing a nominee to ensure a smooth transfer of locker contents in case of the holder's death. Banks follow certain procedures and conduct due diligence to ensure that the locker contents go to the nominee. Barve encourages customers to update nomination details after significant life changes, such as moving from married to divorced status.



दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स टावनकोर लिमिटेड Corporate Materials, PD Administration Building, Udyogamandal, Cochin, Kerala-683 501, Ph: (0484)-256-8633/8260, 2545196 E-mail: deepu.cn@factItd.com, noble@factItd.com, Website: http://www.fact.co.in E-Tender for Removal of Garbage from Plants and Township of FACT - Cochin Division, Ambalamedu

[BID Number GEM/2023/8/3525599 dated 03.06.2023] Online bids (two cover system) are invited for Removal of Garbage from Plants and Township of FACT - Cochin Division, Ambalamedu for a period of 2 years, through https://gem.gov.in portal. Any change/Extensions to this tender will be informed only our website/GEM portal and will not be published in

outperformed the benchmark, predicts Goldman Sachs. Nearly 40 per cent of the current BSE 200 stocks have generated over 20 per cent annualised returns over

two decades - double the 20 per cent of stocks for the Of the universe of 6,700 stocks, about 1,500 stocks (23 per cent) were able to generate

"The six EM markets in our study (India, South Korea, Brazil, South Africa, China, and Taiwan) on average had 30 per cent of their local benchmark stocks generating ten-

"Over the past two decades, the Nifty50 and the broader

In the matter of PATEL AUTO ENGINEERING COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED having registered office at Plot No. R-847/ 3/1, MIDC, T.T.C. Industrial Area, Rabale, Navi Mumhai Maharashtra 400701 PETITIONER Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Western Region, Mumbai under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Tuesday, 28th day of 2023 to enable the Company change its Registered office from the "State of Maharashtra" to the "State of Tamilnadu" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an Affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional

Director, Ministry Of Corporate Affairs, Western Region, 100, Everest, Marine Drive, Mumbai 400 002, Maharashtra., within 14 days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office as mentioned above. For PATEL AUTO ENGINEERING

COMPANY (INDIA) P		
Place: Mumbal Date: 06.06.2023	S Ganesh Director	State Bank of Ir appointment of c Reporting (IFCc IRFP No. CC/FINA News in Bank's procurement-nor document. For fur referring to the we Place: Mumbal Date: 06.06.2023

Due date/time for submission of bids for both tenders are: 19.06.2023/3.00 PM Hindi version of this advertisement is published in our website: www.fact.co.in

Senior Manager (Materials)-T&S-c PPGCL

Regd Office: Shatabdi Bhawan, B12 & 13, Sector 4, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesti-201301 Plant Adress: PO-Lohgara, Tehsil-Bara, Prayagraj(Allahabad), Uttar Pradesh-212107 Phone: +91-120-6102000/6102009 CIN: U40101UP2007PLC032835

#### **NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST**

Prayagraj Power Generation Company Limited invites expression of interest (EO) from eligible vendors for renewal of Microsoft Office 365 subscription licenses of bx660 MW Thermal Power Plant at Prayagraj Power Generation Company Limited Bara, Dist. Prayagraj, Uttar Pradesh, India.

Details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender docume etc. may be downloaded using the URL-https://www.ppgcl.co.in/tenders.php Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by 15" June 2023.

<b>O</b> 2RI	
Financial Reporting and Taxation Department (FRT) IFRS se	ction
1st Floor, State Bank Bhavan, Corporate Centre	
Nariman Point, Mumbai - 400021	

#### REQUEST FOR PROPOSAL

te Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) for pointment of consultant for Internal Financial Control over Financia porting (IFCoFR) and Indian Accounting Standards (Ind AS P No. CC/FINANCE/FRT/IFRS/2023-24/01). Kindly visit Procurement ws in Bank's website https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/ curement-news or https://etender.sbi/SBI/ for detailed RFF cument. For future announcements, if any, in this regard, please keep erring to the websites.

> Sd/-**Deputy General Manager** & Project Director (IFRS)

#### **GROW YOUR BUSINESS WITH BUSINESS STANDARD - THE SMART CHOICE** TO REACH THOSE WHO MATTER!

Write to sales@bsmail.in now, for a customised solution to your business requirements

> **Business Standard** Insight Out

Notice convening the 68th Annual General Meeting (AGM) of the Bank was published on 22nd May, 2023 in the Gazette of India and in newspaper naving wide circulation on 26th May 2023 as per Regulation 21 of the Stat Bank of India General Regulations, 1955. The 68th Annual General Meeting is scheduled to be held on Tuesday, 27th June, 2023, at 03.00 PM at "State Bank Auditorium", State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai 400021 by Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The above Notice and the Annual Report 2022 - 23 has since been disclosed in the website of the Banl (https://www.sbi.co.in/web/corporate-governance/annual-report and https://www.sbi.co.in/web/investor-relations/agm-notice), BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com). The Notice is also available on website of National

OSBI

Securities Depository Limited (NSDL): https://www.evoting.nsdl.com The business to be transacted at the AGM through voting by electron means is:

'To discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank of India made up to the 31st day of March 2023, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank of India for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report or the Balance Sheet and Accounts".

The remote e-voting period commences on 22nd June, 2023 at 10:00 AM IST and ends on 26th June, 2023 at 05:00 PM IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for remote e-voting thereafter Onc the vote is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allo change it subsequently. During the above period, shareholders of Bank, holding shares either in physical form or in de the cut-off date as provided in Regulation 31 of SBI ( 1955 may cast their vote by remote e-voting.

Only those Shareholders, who will be present in the AGM through VC OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions bugh remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM. Shareholders who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM However, they will not be eligible to vote at the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders ailable at the download section of <u>www.evoting.nsdl.com</u> or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre. Senior Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at evoting@nsdl.co.in or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

In terms of relaxations provided by SEBI vide its circular no SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated January 5. 2023, hard copy of the Annual Report is not required to be sent unless specifically requested by shareholders. Accordingly, the Annual Report 2022 - 23 of the Bank and the Notice convening 68th Annual General Meeting has been sent by email on 05.06.2023 to those shareholders whose e-mailidis registered with the Bank / RTA.

Further, the Annual Report 2022 - 23 can also be downloaded from the QR Code given below



The Shareholders are also requested to update KYC data, email id, address, mobile number and bank account details with their DP (if shares are held in demat form) with RTA (if shares are held in physical form), to ensure ease of communication and seamless remittances of dividend.

For State Bank of India Aruna N Dak

Assistant General Manager

(Compliance & Company Secretary)

Place: Mumbai Date: 06.06.2023

00

be held on Wednesday, 28" day of June 2023 at 11.30 AM (IST) through video conference (VC), to transact the business as set out in the Notice of EGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular no. 14/2020 dated 8" April, 2020, General Circular no. 17/2020 dated 13" April, 2020, General Circular no. 22/2020 dated 15" June, 2020, General Circular no. 33/2020 dated 28" September, 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31" December, 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23" June, 2021 and the General Circular No. 20/2021 dated 8" December, 2021, General Circular No. 2/2022 dated 5" May 2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28" December 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), permitting to conduct General meeting through Video Conferencing (VC) without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the said MCA Circulars, electronic copies of the Notice of EGM have been sent on 5" June 2023 to all the members, as on 2<sup>rd</sup> June, 2023 (closing hours), whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the EGM vide MCA Circulars is dispensed with. The Notice will also be available on the website of the Company www.ptcindia.com, website of the National Securities Depository Limited, agency for providing e-voting facility i.e. www.evoting.nsdl.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the securities of the Company are listed.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aedhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility hill or any other Govt document in support of the address proof of the Member as registered with the Company by email to cs@ptoindia.com Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. Members may also send an e-mail request at the email id cs@ptcindla.com for receiving the notice of EGM.

The notice of the EGM contains the detailed instructions regarding the manner in which the members can register their email addresses and cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM and join the EGM through video conference (VC), which is available on the website of the Company/ NSDL/ Stock Exchanges, as referred above

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 21<sup>4</sup> June 2023, may cast their vote electronically on the Special Business as set out in the Notice of EGM through electronic voting systems of NSDL. All the members are informed that:

- The Special Business as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on 25° June 2023 at 9.00 am (IST);
- The remote e-voting shall end on 27" June 2023 at 5.00 PM (IST);
- Aperson who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of EGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote: and
- Members may note that:

Date: 6" June 2023

Place: New Delhi

- a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently
- b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM; and
- d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and voting at EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or at National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 or at telephone nos -+ 91 22 2499 7000, +91 22 4886 7000, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. By Order of the Board

For PTC India Limited sd Rajiv Maheshwari Company Secretary FCS 4998

		·	10					
कल्या मूचना (अनल संपत्ति हेतु) जब कि, इंडियाबुल्स हाउसिंग कावनान्स लिमिटेड (CIN-L65922DL2005PLC136029) प्रति अधेकारी होने के गांते अधोरत्वचारी ने सिनगोरिटाइनेशन एंड रिकन्स्ट्रन्शन ऑफ प्रमवारी असेर एंड एक्सेसिंग्ट ऑफ सिनगोरिटी इंटरेस्ट एसट, 2002 के आगंग और नियम 3 के साथ 13(12) के साथ सिनगोरीटी इंटरेस्ट एसट, 2002 के आगंग और नियम 3 के साथ 13(12) के साथ सिनगोरीटी इंटरेस्ट एसट, 2002 के आगंग और नियम 3 के साथ 13(12) के साथ सिनगोरीटी इंटरेस्ट एसट, 2002 के आगंग और नियम 3 के साथ 13(12) के साथ सिनगोरीटी इंटरेस्ट एसट, 2002 के आग पहले हुए प्राप्त अधिकार उपयेग करके कर्जवार सायना सिंह, वर्षा उनियाल, बोता वनियाल और पिंटू कुमार ने 16.02.2 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज वाता . HHLHDW004300366 की राशि क.13,43,965.9 (अपए तेपर लाख तैलालीस ढजार नी सी पैंसट और इक्यानवे पैंसे मात्र) और 10.02.2022 के अ उस पर व्याव उक सूचना की प्राप्ती की रारीख से स्पष्ट 60 दिनों के पीतर नुकता करने का आवाहन हुए ऑपमानना सूचना नारी की थी। धनराश नुकता करने में कर्जवारों के असफल रखने पर एतरद्वारा कर्जवार और सर्म उन्ह बजून के नियम 8 के ताल सिमगोरीटी इंट्रेस्ट (एफोर्समेट) रूस्ट, 2002 के ताल अधेकठरों का सबर्गान्सन करके 02.06.2023 को संपत्ति के साथ सीच को करने के सावधान किंगा जाता है और संपत्ति के साथ कोई पी सीच राशि क.13,43,965.91/- (रुपए तेरह स तैतालीस हजर नी से पैंस जाते हे स्वयानवे पैसे बात) 10.02.2022 के अनुसार और उस पर के साथ इंडियाबुल्स हार्डसंग फावनान्स सिनिटिड के आधेन होगा । उधारकर्जों का अपन ऑधेनिंगम की पारा 13 की उप - थारा (8) के अन् संपत्ति/ फॉर्स वे-250 के शेष भाग के सभी भाग और खंड, साधित 57.24 स्के. खसरा नं.443, दिहटी विस्काधित एरिया में स्वित, नजोवद मनर पार्क के पास, रोझनावाद, इर खनरास्तं - 29402, सीमाएं:	measuring 3 Bighas and 15 Blawas bearing (Khaspur, Tehsi Hauz Khas, New Delhi-110062 (Property) and the General Public is hereby informed that the Property is not available for sale. 4/- Any person entering into any transaction in the form of an Agreement to Sell or otherwise with any third person, shall be carrying out such transaction at his sole risk, costs and consequences as the said transaction shall be null and void, without in any manner affecting the rights of my Clent in the same. Atkhit Sachar (Advocata) 011-41018988 Chamber No. 5-242, Delhi High Court	नई दिल्ती-110020 दूरमाण: +91 11 490654/9 ईमेल: Secretariai CIN: U6599DL2016PLC303211 प्रथत्र सं. काईएनसी-26 [कॅमनी (शठन) निवम, 2014 के निवम 300 ज्या कंपनी (शठन) नि 2017 के अनुसार्ग कोत्रीय निदेशक, उत्तरी कोत्रीय भीठ, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, न कंपनी अपिनियम, 2013 की पारा 13(4) तक्ष कंपनी (शठन) नियम, कंपनी (शठन) दितीय संशोधन नियम, 2017 के आर्थन एक गंजीकृ वार्यां क्यां दिविपिटेश, कंपनी आंधिनियम, 2013 के आर्थन एक गंजीकृ वार्यां क्यां दिविपिटेश, कंपनी आंधिनियम, 2013 के आर्थन एक गंजीकृ वार्यां क्यां दिविपिटेश, कंपनी आंधिनियम, 2013 के आर्थन एक गंजीकृ वार्यां क्यां दीवीदि 625/626 ठीएलएक प्राइम टावर, ओखता फेजनी, न मामले में एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी आपने पंजीकृत व क्षेत्र दिल्ली <sup>4</sup> से "तोलंगान्जा राज्य" में ज्यागांतित करने देतु कंपनी के स 2023 को आयोजित असावायण जाम देवन में गारित विशेष प्रस्ताव के ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के पुष्टीकरण की मांग करते हेतु कंपनी आंधि के कार्यिन केटीय सरकार के समग्र आवेदन दायर करने जा परी है। कोई में जिनका हित कंपनी के पंजीकृत वार्यात्रय कर स्वता हे, ऐसे आंकि अपनी आपंती इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदाय गोटेल (www.mca.gov.in) पर निशंक शिकायत प्राप्त भर रूर स्वका निदेशक, उतरी संत्रीय पीठ, सी-2 विंग, दूरारी भंजित, पर्यावर म नई दिल्ती-110003 के समग्र दर्ज कर सकती है साथ में दित की प्रकृति कोई है, बा उत्वलेश करे एव उसे सरकागमा हात सम्मीत कर सेने तम कंपनी के पास नीचे उत्वलेशित गते पर स्थित उनके पंजीकृत कार्यालय में सीएलएफ प्राइम टावर, ओखता फेल-1, नई दिल्ती-110020.	Picil.com दितीय संशोधन नियम, र्द दिल्सी के समझ 2014 के नियम 30 तथा व कंगनी, विश्वका पंजीकृत रई दिल्सी–110020 है, के न्द्र दिल्सी–110020 है, के न्द्र दिल्सी–110020 है, के कार्याल्स <b>राजप्रिय राज्यानी</b> प्राप्त बनाने के लिए 29 गई, मरेनजर कंगनी के मेगोरेंडन प्रोतिक, दाप्त के मेगोरेंडन दलाद से प्रमाधित हो चकता दिनों के संदर एमसीए-21 पंजीकृत जाक हारा खेत्रीय रवनिय के कारण, यदि 1 उसावी एक प्रति आवेदक	प्रयोभरित कार्यालय : प्यन्ती पैठियुद्धन कार्यालय : प्यन्ती पैठियुद्धन कार्यालय : ''नीयु, जयीभूती दिश (प्रयाने) नियना स्व-कर्जवार(री)/मारत्य(री)/ पुगतान करने को कहा श्या क रेड-कर्जवार(री)/मारत्य(री)/ 15(4) के संसाधित उत्त नियना स्व-कर्जवार(री)/मारत्य(री)/ उठ संयति के साथ किसी भी झ उपलव्य समय के संबंध में, प्रतान कर्जवार/सह-कर्जवार का नाम प्रस्क अलावा पताः श्री टीनी कोह संपत्ति का विवरक- पतेट स. ग्र सीमांकन विज्ञी विलेख अनुसाव मांग सूचना की विनाक 22 अमेल, 2021	स्मप्रेसथे, जयभी भीन रेस हाफरस: खनेंक - जयर के स्वरण्ये न स्वरण्ये नीसपा सल, पा स्वरण्ये नीसपा सल, पा स्वरण्ये नीसपा सल, पा कार्यकर नी जो को जो ते का जानीत करें प्रवत ! कार कर तेनदेन प्रतिस्त प्रत भरिसंपति का प्रुडाने : - 1. श्री टोनी कोलहर्षेय न परिसंपति का प्रुडाने : - 1. श्री टोनी कोलहर्षेय न स्वर्णकनिका प्रिडान स्वर्गकनिका से स्वत प्रत परिसंपति का प्रिडान स्वर्गकनिका से स्वत कार्यक की किना कार्यक की विना त्यर सी/ग्रास्टर स्वर्ग्वा स्टिब्र्ड्वेश्वन द स्वर्ग्वा स्टिव्द्व्वेश्वन द	3 अंदरतपर मात्र ) वनकर्ता (ओं) को राशि चुळाने के लिए 30 दिनों व 9 के तहन प्रावधानी के अनुसार, इस सूचना के प्रकार	अगेर दिल्ली आ शुद्धवन्त भार्ज, म साधिण अडमवा निर्माय और प्रतिषु र्णना प्रदुखना मिन प्रदाव शकिप शारी चक सुम्लान शारी चक सुम्लान र कव्या प्राप्त क र कव्या प्राप्त क र कव्या प्राप्त क र कव्या प्राप्त क र कव्या प्राप्त क ने विषय संपत्ति क के प्रावधान्न पर के प्रावधान्न पर के प्रावधान्न पर के प्रावधान्न पर के प्रावधान्न पर के प्रवत्त की विनक्षित्र अ स्ता/- प्राधिकृत ह धून्योसीमेंट आं	र एनसीआर की अन्य आन्दसी वर्ड-400025 वाद-380006 विहित प्रवर्तन अधिनिषम, 2002 और हे का प्रायंग में निम्म कर्जवार(रो)/ की प्रक्रि की दिनांक से 60 दिन के नितर रूरने में विमल रहे हैं, कर्जवार(रो)/ इस किंती प्रकार रहे हैं, कर्जवार(रो)/ इस किंती प्रकार रहे लेनचेन न करें और रिया है। विशेष स्प से कर्जवार(रो)/ इस किंती प्रकार रहे लेनचेन न करें और रिया है। विशेष स्प से कर्जवार(रो)/ इस किंती प्रकार रहे लेनचेन न करें और रे मुंदर(री)/ बंधककती(जी) का प्यान क्षेत्र किंपा जता है। 1, मोडी नगर, नई दिवली–110015, 7, नुडगाव, हरियाणा–122001, 1001 का संपूर्ण व सवीगीज भाष और वे अहानाह लाख इमननठ हजार तीन सी हे, जन्वला बंधक रह्यों गई संघरियों को 0 किंगी की लमानित पर बेंच विया जाएगा। 1 अधिकारी, एक्सिस बेंक सिमिटेड क
वर्णराखर- 249402, सामार. पूर्व: फ्लॉट नं250 का शेष भाग पश्चिम: 25 फीट चौहा पैसेज			सुमित कुमार मैवा	1 कर्ज खाल क.HHLNO		बल्युएस फ्लैट नं17सी और 18 सी, तीसरी		क.7,70,355.64 (कपदे
उत्तर: 18 फीट चौड़ा पैसेज दक्षिण: प्लॉट ने. 251		तारीखः ०५ जून, २०२३ स्थानः गुरुआम	निदेशक कीसप्रेष्टनः 7558330	1. अवयेश शर्मा 2. उषा देवी		क्ल, न्याय खंड -II, इंदिरापुरम, जिवाबाद-201010, उत्तर प्रदेश		सात लाख सत्तर हजार तीन सौ पचपन और चौसठ पैसे मात्र)
दिनांतः:02.06.2023 स्थान : इरिद्वार प्रायिकृत अयिक इंडिवाबुल्म हार्डसिंग फाथनान्स लिमि	सी	शिल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. इस्टेट्यूशनन (रीग, गुरुधम, हरियांग) 12000 रेन्ट्रेट द्यूशनन (रीग, गुरुधम, हरियांग) 12000	अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना अमिषा, 2002 के तरह जोत	2 कर्ज खाता क्र.HHLDM 1. दीपक गौरव 2. सरोज 3. ललित गौरव 4. संदीप गौरव	1T00443275 पर्ल मी बी बेस लढ जल	ट नं.एकएक -2(एम.आई.जी.), पहली तल, पीछे बॉए हाथ की ओर, फ्लॉट नं. -18, ब्लॉक -बी, खत्तरा नं.408, डीएलएक विद्वार, गॉव सहुलाबाद, परगना और सील लोनी, माडियाबाद-201102, २ प्रदेश	18.05.2023	16.05.2023 के अनुसार क. 15,46,632.29 (कपये पंद्रह लाख जियालीस हजार छ सौ बतीस और उनतीस पैसे मात्र) 18.05.2023 के अनुसार
Q.	संचतित वालिक और जन्म के दास राशि जात न कर चने निवम 8 4 5 के साथ प्रतित तका अप्रिनिवस की पता 13 कन्मत के लिया है। जब, निष्टेष कम से कर्कतार और सबे	थे भी मुलना में उनिलबित रखीं को दका मुलना की जरीख में 80 दिनों के जन्मर जया क 1 पर १९०६राग अस्तितिया कर्लवानों और सर्व सामना को सुवित किया जाता है कि उसके (ब) के ताला प्रधार सबितामों का प्रयोग कर गौने वर्षित संपति / जों कर प्रतेक रखते के लिए करों को सामन्त कर में संपति से कोई भी लेन देन न करने के लिए सामार किया जा कर लगाती जानि के लिए की मार के जाई नेजन्म भाईनेस कॉनेटिका हित के सामर के जाने	टस्तावची ने उत्तर निवयावती के 1 वरिलसिय वारीसों को चौतिक वा में तथा संपत्ति/अंडे के साथ	3 कार्ज स्वाता क्र. HHLNO 1. जरुष्य कुमार 2. खुशी सिंह ठाकुर वर्ष	हाण में खुझी सिंह एक	ट नं एस-3, दुसरी वंजिल, पीछे बाएं 1 की ओर, प्लॉट नं.738, शालीमार गार्डन सटेशन – I, साहिबाबाद, ज़ेवाबाद - 201005, उत्तर प्रदेश	12.05.2023	रू.15,68,469.44 (रूपये पंद्वह लाख जटसठ हजार चार सौ उनद्वतर और चौवालीस पैसे मात्र) 12.05.2023 के अनुसार
कब्जा मुचना (अपल संपत्ति हेनु) जब कि,	ह. कर्जन्दार/जयान्त्री चं (पंपति पातिक) का नाम और ज्ञान कात्रा संख्या 1. जि./जिपनी कार्यना कार कावास	अन्तरित/संबच कंतनित नांग सुचना की छ (संपतित के समस्या चना व कांग) सांग सुचना की छ का विवरण को देव पति प्राय ना दात तब / व / व पति	तिव, चौतिक रूप्ये तिव की वारीव हराहरहरत	4 कर्ज खाता क्र. HHLGR 1. संबीव कुमार रावपुत कुमार आर 2. ईसरी देवी	र उर्फ संजीव मंदि	टि नं04/ST. 83 E-10/ 180/ पहली क्ल/ 83 E / वाटिका इंटिया, सेक्टर 83 E बाद, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा	12.05.2023	क.27,21,040.97 (रूपये सत्ताईस लाख इक्कोंस हवार धालीस और सत्तानवे पैसे मात्र) 12.05.2023 के अनुसार
धनी लोन्स एंड सर्विसेस लिमिटेड (इंडियासुरूस कंज्यूमर फायनान्स लिमिटे (CIN:U74899DL1994PLC062407) व्यक्ति अर्थकररी होने के नते अर्थोहस्ताक्षरी सिचयोरिटाइनेरान एंड रिकन्स्ट्रकरान ऑफ फायनांशियल अर्सेट्स एंड एन्फोर्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ घारा 13(12) के साथ सिक्यों	ने ने राजस्थान राजस्थान रिट अरुफ खाता सं. HI2000002254	पाली स्थित आवासीय प्लॉट न. 212 का पूठी चाम, नाप 500 वर्ग पूट के सभी माम व राढा सीमाएँ- पूर्व फ्लॉट न. 213, परिवम प्लॉट न. 212 का रोप वा.05.007 लीट न. 200, दक्षिण रोठ माम, उतरार प्लॉट न. 200, दक्षिण रोठ	রান উল্লা নহা। এটা তিনাক রার্য এক রাগ্যু দা	<sup>5</sup> कर्ज खाता क. HHLDC 1. बीजू पेलिसरी पौलोस 2. बिष्णु जुमारी	ল থাঁ	टि नं B-310, तीसरी मंजिल, ब्लॉक बी, वर-5, आरएमजी रेसिडेन्सी, Iटर -37-C, गुरुग्राम - 122011, हरियाणा	12.05.2023	क.15,97,480.41 (रूपये पंदर लाख सतानवे इवार चार सौ अस्सी और इकतालीस पैसे मात्र) 12.05.2023 के अनुसार
इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के संघ पहते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जवार आजय गु प्रोप्राइटर बाथ सेलेक्शन, वेपोसेरा इंडिया प्रा. लि., सुनीता गुफा और कसीस गुप्ता को 24.02.20 की सूचना में वर्जन के अनुसार कर्ज खाला ने, HILADLE00464029 की गरिंग रू.28,58,832.	ता पाय कुमार की राजेव कुमार निवासी पकरन ग. 50, गोकुल विरार, मोलवाडा, हालेद रोड, मोलवाडा, राजक्ष्यान - 311001, जन्म पता:	संपतित खसरा न. 1672 फ्लॉट न. 28 वन चाम, मंग पूनन खाळा.302 बततंदा, अपलेर, टाजलचान-305607, साथ एरिया 19733 वर्ग माज के समी माम व खाद। सीमाएँ- द्रिप्ट येड, परिचम खुली जामन, उध्यार श्री बजरा वितरंक 18.05.2022 को देश हिरांड की संपतित संपतित न. 28, दवीरण भी जाने की बाज की स्थान जा	सिंध पैक्षा मात्र) जीव विन्तांक सिंध जन्म लाग्य	6 कर्ज खाता क्र. HHLNO 1. तमेश 2. बंगी देवी 3. सुनीता	घोर फे	टि ने. 26-थ, तल मंत्रिल, जनता फलैट, केट -B-8, कोंडली घरोली, मधुर विहार त -III, नई दिल्ली 110096	12.05.2023	क.21,48,551.09 (रूपये इक्कीस लाख जठतालीस हजार पांच सी इक्वावन और नौ पैसे मात्र) 12.05.2023 के अनुसार
(रूपचे अद्वाईंस लाख अद्वावन हजार आठ सी बनीस और चौराववे पैसा मात्र) और 10.02.2023 अनुसार उस पर व्याव उका सुचन की प्राणों को तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के पीतर खुकता करने का आव करते हुए अभिवाजन सुचन वारी को थे। धनराशि चकता करने में कर्जदर्शों के असफल रहने पर एतरद्वारा कर्जदार और बार्व सामान्य जनता को सु-	तेन LA30CLLONS000005001648 तिनी पूल्पताल के लिए कृपता भी मिनन साथ (१०१ ७७८० इन्ह्रान्द सालसान, दिनोंक १८.१८,२००३		(ਸ਼ਰਿਤੁਹ ਰਧਿਵਾਰੇ) ਨਾ ਬਾइਜੋਰ ਜੀਬੀਏਜ਼ ਜ਼ਿਲਿਟੇਫ਼	7 कर्ज स्वाला क्र. HHLNO 1. सीना माधुर 2. व्रितिज माखुर	संधि जी। जग	गटेंगेट नं. मजत -मन-6-0502, पाचनीं तल, टॉवर -6, मिगसन अल्टीमो, फ्लॉट नं. एच -03, सेक्टर-ओमिक्रॉन -3, गौतम बुद्ध र, ग्रेटर नेएता-201307, उत्तर प्रदेश	16.05.2023	रू.12,59,382.34 (रूपये बारह लाख उनसठ हवार तीन सौ बवासी और चौंतीस पैसे मात्र) 16.05.2023 के अनुसार
भनराश युकता करने व कवेदरा के असप्रभा रहन पर एकदुरार कमयार अन्य सब सामान्य मनता का सू दी जाती है कि, अक्षेहस्ताक्षरी ने उनत कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उन्तर कानून के निषम 8 तडव सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनग्रोसॅमेंट) रूक्स, 2002 के तडव प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन क 31.05.2023 को संपत्ति पर सांकितिक आधिपत्व कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए साम	<ul> <li>RELIANCE तिलाग Asset Reconstruction गोरेगा</li> </ul>	नायंस एसेट रिकंस्टूक्शन कम्पर्न वंस सेंटर : 11 वां तल, नार्थ साईड, आर टेक पार्क, वेस्ट व (ईस्ट), नुम्बई–400063 बिक्री हेतु सूचना [देखें नियम 6(2) के साथ पठित नि	र्न एक्सप्रेस हाईवे,	8 कर्ज खाता क. HHLNO 1. आशीष कुमार 2. लिज़ा सिन्हा	टॉय आग सेव बुद्ध	ांट नं सी-1908, उच्चीसवीं मंजिल, १र-सी, मापित 1050 स्के.फीट विक्टोरिया तरा पर, प्लॉट नं. जीएच-05 -सी पर स्थित, १टर नं18, ग्रेटर नोएडा पश्चिम, जिला गौतम इ नगर (बु.पी.)	12.05.2023	रू.11,20,323.87 (रूपये ग्यारह लाख बीस हजार तीन सौ तेईस और सतासी पैसे गात्र) 12.05.2023 के अनुसार
किया जाता है और संपति के साथ कोई भें सौंच राशि रू. 28,58,832.94 (रूपये अद्भाई म लाख अद्भा हजार आठ माँ बन्तीस और चौरावले पैसा मात्र) 10.02.2023 के अनुसार और उस पर ब्वाज के साथ क लोन्स एंड सर्विसेस लिमिटेड के आधीन होगा. उधारफर्जाओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को चुकत क	वित्तीय परिसंचलियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण उ वी भियम 8(6) के तहत अवल परिसंघलियों की विज्ञी हेतु एतद् क्रस आम तीर पर जनता को और विरोध रूप से व वर्णित अचल/ चल संपरियों का भौतिक करना प्रायापट	और प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनिधन, 2002 के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूति हित 1st-नीलामी बिंकी सुचना ध्यारकरा((ओ) और नारंटर(ओ)) सुचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणवता को बंच	( (प्रवर्तन) निषयों, 2002 के सक/दृष्टिबंधक रखी गई निम्न	9 কর্ব ম্যারা ক. HHLWA 1. নবল के गुप्ता 2. आशा गुप्ता	बन एम गौर	तेट नं 702, सातवीं बंजिल, ॉक -1, समृद्धि लक्ष्मुरिया एवेन्यु, प्लॉट नं. सी-02ती, सेक्टर -150, स्पोर्टस सिटी, तम बुद्ध नगर, नोएटा – 201303, उत्तर प्रदेश वाते के वितीय अनुशासन को ब्लाए रख पाने में अ	16.05.2023	क.42,11,770.94 (रूपये बवालीस लाख ग्वारह इजार सात सी सत्तर और चौरानवे पैसे मात्र) 16.05.2023 के अनुसार
के लिए उएलस्थ समय मने और आमंत्रित किया जाता है। अखल संपत्ति का विवरण मवपन/श्वॉट नं.3 (बेसमेंट, तल मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल) र्वांट परिया माथ 250 स्वयेजर यारं वर्तनान में ईश्वर कॉलोनी से वरवाने जानेवाली ही एप.सी.स्टाफ को ऑपरेटिव सउस बिल्डिंग सोस्क लिमिटेड के लेआउट योजना में स्पित, भाना शाह मार्ग, नई दिल्ली- 110009 और वो निम्मनुसार परिबप्ध है पूर्व : 15 चौड़ी गली पश्चिम : 90 पौट सडक उत्तर : प्लॉट नं.5 दक्षिप : फ्लॉट नं.1 सई दिवांक: 31,05,2023 प्रार्थिकृत अधिक स्वान : नई दिल्ली धनी लोमि स्वान : वई दिल्ली धनी लोमि स्वान : वई दिल्ली धनी लोमि स्वान संपत्ति हेतु) जब कि, धनी लोन्स एंड सर्विसेस लिमिटेड (इंडियासल्स कंज्युसर फायनान्स लिमिटे	ट्रस्ट के दूस्टी सिसायंस एसेंट स्किस्ट्रकान कंपनी सिमि सातां की प्रतिय परिसंपतियों / फर्जा के सींपा से उक्त वसूनी करने के हकवार हैं । इसतेंपर, प्रेसवयंत एसेंट सिकंस्ट्रकान कंपनी लिपिटेंव संपत्तियों को ईगीलानी के माध्यम से अपोक्स्ताकारी झ कल्लेवित क्यारकर्ताओं/ वंपयकर्ता से प्रत्या मुद्द करन (2) के तहल ''जो है जहां है'', ''जो है जैसी है'', औ नियन प्रकार हैं : '' ते सत्या नारायण केवर पुत्र वाली राज कंवर, नि विल्ली 110053 क्सके अलावा : प्रिया य परनी सत्या नारायण कुंवर, निवासी जी- दिल्ली 110053 क्सके अलावा : प्रिया य परनी सत्या नारायण कुंवर, निवासी जी- दिल्ली 110053 क्सके अलावा : प्रिया य पत्नी सत्या नारायण कुंवर, निवासी जी- दिल्ली 110053 क्सके अलावा : प्रिया य अधिमाजित, अधिमाज्य और जमेवर स्वानित्त (घरेलू) क्याने के अधिकरो सहित, स्थित प्रथम शख्या, नई दिल्ली 110083 का संवृद्ध अधिमाजित, अधिमाज्य और जमेवर स्वानित् (घरेलू) क्यान क्रिक्त के अतिकरो सहित, स्थित प्रथम शिवय, नई विल्ली 110053 क्या की प्रिया हम (रुपये दस लाख सत्ताईस हजार तीन सो पीसत लागतो । कब्जा की विनांक : 08.06.2022	मेटेड (आवर्षआरसी) के पथ में अंतर्शिहेत प्रदिम्हुलियों के साथ अपने अधिकार, हीवंक अभिहेत्तर्वकन के आधार पर, एन आपके प्राप्ताभुत ज्ञणवाता बन गए हैं और व्यनुनी श्र ह के अधोहरताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, आपको 30 विनों की सुलना थी जातें तरा रितायस एसंट रिकस्टूपशन कंपनी लिभिटेड आरर्डआरसी 080 (आरएबर्डीएकसी पाता के बकस्या लागक के लिए जीर मांग सुराना में उल्लेकित पाति की बसुलों के लिए भा र ''वहां जो कुछ भी है'' पर जिनक 14 0.7.2023 को बेसा जाएगा। आरसित मूल्य अ <b>यंधक संपत्ति का विवरण :</b> मर, संपत्ति विवरण मांग सुराना और कब्जा दिनांक वावारी जी—162 / एपुराना सं. जी—96 ब्लॉक जी गली 4 शास्त्री पॉर्क शाहददा लोबल (प-33, सेक्टर-6 नॉएडा) जतर प्रवेश—201301 और अंजला देवी —162 /ए पुराना सं. जी—96 ब्लॉक जी गली 4 शास्त्री पॉर्क शाहददा तोबल (प-33, सेक्टर-6 नॉएडा) जतर प्रवेश—201301 और अंजला देवी —162 /ए पुराना सं. जी—96 ब्लॉक जी गली 4 शास्त्री पॉर्क शाहददा तोबल जी कुछ भी है और लिना छत अधिकारो संग भूमि अत्यांत संग्वनुपातिक, व अधिकर्श सहित और आस्ट्रिसी तल की छत पर पानी की टेकी, टी.वी. एनटिना भीच चैन्नत सिंह स्वत की रायति । मांग सुवन्ता : क. 10, 27, 364.62/– त और बास्ट पैसा मात्र) दिलंग 21.04.2021 तक संग भविष्य का व्याज और में च11.07.2023 समय : पूर्वाक्स 11.00 से अपहित्य तक के 12.07.2023 समय : पूर्वाक्स 11.00 से अपहित्य 0.00 बजे के 12.07.2023 समय : पूर्वाक्स 11.00 से अपहित्य एक	और स्वाव के साथ अपने ऋष व से पुरे संविदायक बकाया की ों है कि कीचे उल्लेरिस्त बंधक हिल एषएल) दूस्ट के दूस्टी के विच्या के स्वाज सहित पाल 1.3 ति बयाना धन जमा (ईएमडी) आश् <i>विहत ईएमडी</i> पिल्गांक दिनांक 15,07,500/- 1,50,750/-	में रखे जने वाले खातों के अनुब उधार लेने वाले (लो) की ओर ये के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तिगं धरा 11(2)के अंतर्गत खुनवाएं भं उपनुंक को द्वीप्टरात रखते हुए न 60 दिन के भीतर अधरत ज्याज, 3नके पूर्व वाश्वलोका निर्वक्षम कां कृषण प्रधान दें कि सरफेसी का सार्वजील निर्विच्च मा कि सम अंदर सुरक्षित आसित को मोचन सरफेसी अधिनियमन की उपधार में से कोई भी (अपने ज्याधार के स्थान: भाविषाधार/मुक्साय/न	शर इत्लेक उथार पानेवत । कल धनराशि का पुलर्भु यो (स्तंभ थी में तारीख ने मी जारी की मई सै कंपनी एतड्वारा ऊपर लि लागरें, तथा सुल्को बसी रे, ऐसा न करने पर कंप नून की थारा 13 की उप एडीने द्वारा सुर्पथत अर्थी थ संपूर्ण ककरवार विफल ता 13 (2) के प्रावधान के सामान्य पाठवज़म्म के अ नई दिल्ली/खेटर नोएछा पंजीकृत कार्याल प्रोन	ते (लों) के बाम के आगे स्तंभ ही में विविर्द्ध धन तातान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वात के अनुयार) के रूप में वर्षीकृत किया गया है। पर तस्रे गम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन न हत उपर स्तंभ हो में विविर्द्ध वंपूर्ण करागा देता। नी उपर के प्रांथ ही में विविर्द्ध वंपूर्ण करागा देता रह न थरा (स) के प्रावधाने के अनुसार,'' कर्नवार देवर्यों की बिकी के लिए सूचना के प्रकाशन के दि श अव कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्वष्ठ र रहने पर कर्जवर संपत्ति का सेनन्द्र करने के लिए संदर्भ में, आप इस प्रकार बिकी, पट्टे के माण्यम वं स्तवा) सुराधात लेनवार की पूर्व लिखित सहमति वं /गौला बुद्ध नगर/नोएडा सीआईएन   L40105DL1996 स्य : हिलीय ताल, एनवीलीसी टावर, 15. 101 – 41656500, 41595100, 4848420	तींश बकाया बनी ते (लो) के ऋष क रेषाम स्वरूप प्रत्ये करती है कि, वे इ ओ का पुष्तान क अपित के अधिष्ठ सार्वजनिक जैलात न दे कि उपरोक पि पात्र नहीं हो सकत ते अन्यथा नीटिय के बिना स्थानांवरि कृले इंडिया PLC099328 भीळाजी कामा 0, फैक्स : 0	हुं है। तो को कंपनी द्वारा सीमांकित मापरंजे क उच्चर तेनेवालों को अधिनियम की स सूचनत के प्रकाशित होने के दिन से एक कंपनी के प्रति सर्मने बाले अपने/ हीत करने के लिए कंपनी चात्र होंगे। हिंदा, करेरेशत आपनित करते हुए, सिल्मोर्ड केस्टिरर द्वारा किए एए सभी वधिक रूप से निर्धारित समयावधी के 1° 1 उल्लिसित अपनी सुरीधत संपतियों 1 करनेसे प्रतिसंघर है। प्राधिकृत अधिकारी बुल्स हाउसिंग फायचनाना लिपिटेड मेटेटेड
বেনা দানৰ বুভ মাবেজন স্বোচনত (Stealgre বাব্যুনা কাৰ্যনান দেনাত (CIN:U74899DL1994PLC062407) মাধিকৃত অভিকাৰ্য টুন ক নাই সমায়নো বিষয়টা/?বেলীসাল হ'ব বিজ্ঞানজ্যল আঁজ জাবলালিয়েল আইসম হ'ব ফল্বাম	ने ईमीलामी की दिनाक : दिना ईनीलामी विज्ञी के नियम और शर्तें: 1 संघति को	क 17.07,2023 समय : पूर्वीह्र, 10.00 बजे से अपह्रि 01.00 बजे के बीच प्रारं आरंधित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जारणा और बिजी प्रत्यामृत ऋणवत्ता वे खय		PTC India		l—गेल : info@ptcindia.com. वेवसाइ		VCGASSAM

सिक्सी(रहेइंगरान एक रिफल्स्ट्रक्शन आफि पंग्रेशनी)रायल असट्स एक एन्प्रोसमट
ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के ऑगर्गत और निषम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी
इंटरेस्ट (एम्प्रोसीमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्रान्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जवार आज्ञय गुणा
प्रोप्राइटर बाथ सेलेक्शन, वेपोसेरा इंडिया प्रा. लि., सुनीता गुप्ता और कमीम गुप्ता को 24.02.2023
की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाला नं. HILADLE00464073 को राशि क.63,48,280.49
(रूपये तिरसठ लाख अड़वालीस डवार दो सौ अस्सी और उत्त्वास पैसा मात्र) और 10.02.2023 के
अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना को प्राणी की तारीक्ष से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर नुकता करने का आवाहन
करते हुए अभियायना सूचना जारी को थी ।

धनराशि युकता करने में कर्जवारों के अग्रफल रहने पर एतरद्वारा कर्जवार और सर्व सामान्य जनता को सूचना यो जाती है कि, अधोहल्ताइसी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के निपम 8 के तहता सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहता प्राप्त अधिकारों का कार्यानायन करफे 31.05.2023 को संजीत पर सोकेलिक आधिषक्षय कर लिया है।

विशेषतः कर्जवारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावभान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि क.63,48,280.49 (रूपये तिरसठ लाख अड़तालींस हजार दो सौ अस्सी और उनचास पैसा मात्र) 10.02.2023 के अनुसार और उस पर व्याज के साथ बनी लोन्स एंड सर्विसेस लिमिटेड के आधीन क्षेग.

उभारकर्ताओं का भ्यान अभिनियम की भारा 13 की उप-भारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

#### अचल संपत्ति का विवरण

मकरन/ प्लॉट नं .3 (बेसलेंट, तल मॉजल, जहली मॉजल, दूसरी मंजिल) प्लॉट घरिया माप 250 रक्वेअर यार्डस, वर्तमान में ईश्वर कॉलोनी से पहचाने जानेवाली डी.एम.सी.स्टाफ को-ऑपरेटिव झाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के लेआउट योजना नेंस्थित, भागा शह गार्ग, नई दिल्ली-110009 और जो निम्ननुसार परिबन्द है। पूर्व 15 'बैट्डी गली परिषम 90 फीट सड़क उत्तर थ्लॉट नं 5 दक्षिण थ्लॉट नं 1 अधीन है। 2. मेरलर्स सी 1 इडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. 68 मुख्यांव हरियाणा पिन कोठ 122003 के माध्यम से इं-नीलानी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 3.ई-नीलामी में मांग लेने से पहले, इष्ठ्राइक बोलीयाताओं को एक केय ई- मेल आईडी बना कर और पोर्टल नाम www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीवृत करना चाहिए और मेरासं सी 1 इडिया प्राइवेट लिमिटेड से अपनी उच्योगकती आईडी और पासवर्ड प्राप्त कें 14.संभावित बोलीयाता में सर्थ सी 1 इडिया प्राइवेट लिमिटेड., (मंपर्क व्यक्ति : श्री विनोद बीहान से मोबाइल +91 9813887931). Dolhi@c1india.com या Support@bankeauctions.com (हेल्य लाईन सं. 7291991124, 25, 26) पर उं-नीलामी ऑनलाइन प्रवित्ता का पा उठा सकते हैं। 5.अडीम जना रागि (ईएमडी) आरटीजीएस/ एनईएपाटी पंड ट्रांसकर के माध्यम से चालु खाता संख्या 122505002 148, तेंक का नाम उठा सकते हैं। 5.अडीम जना रागि (ईएमडी) आरटीजीएस/ एनईएपाटी पंड ट्रांसकर के माध्यम से चालु खाता संख्या 122505002 148, तेंक का नाम आईसीआईसीआई के लिनिटेड, लाखा: दीच देसाई शाखा मुंबई, 400058, लामार्थी का नाम. आरएसआरसी 080 (आरएवडीएफसीएल एवएल) ट्रस्ट आईएफतएसती केंड ICIC0001225 में जमा किया जाएगा कृप्याध्यन में के वेक/ डिमांड द्वाप ट ईएमडी के लिए स्वीताकर नाई किया जिला हि.आइपित मांग कें नी नी ते ती या इंएमडी राशी के बिता खी बोलिया स्वीत्र की जाएगी बोलीवाता अपनी बोली साई में रु. 5.000 प्रति लॉट गुफक के रूप में आमे सुधार कर सकते हैं। टातल बोलीदाता घोषणा के तुत्वा या बोली राशि/बिटो मुत्त्य (पहले संहात) का 25% प्रायता के आव स्वान बेलीयाता की घोषणा के संस कते हैं। ते स्वल्य बोलीदाता की घोषणा के क्या नाम में की बीली मुंहल से मुगतान किए गए पैसे सहित के 25% प्रायत के स्वान्य कर सकते हैं। ते प्रवल बोलीदाता घोषणा के तुत्वा या बोली राशि/बिटो मुंहल सित्ता को किंगा किती सुधान कर या कर तिया जाएगी। 19.इं-नीलानी लिखन की का प्रवल बोलीदाता घोषणा के तुत्वा या बोली राशि हो का उठकर पुरात सं पर कर वी काएगी। 19.इं-नीलानी लिखन वार्यवारी बेल हेन के बाल सर की के कार्या हो के प्रेल सात किंगों के मित्ती सुधन के जया करती ही। हम स्वल बोलीदाता की घोषणा प्रवल कार खीती संत कर रहता है। वो इंप्ल रिहा कर के या अल्वोकर कर वी वार्या का व्या कर की हम विद्र किं कर जिन्द वार्यवा कर का बाल सात कर कर करती हो हो बाधि का स्वाक सरकर यो

#### अधिक जानकारी के लिए, 18001039711/18602664111/1800309971 से संपर्क किया जा सकता है।

#### प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के तहत नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की सूचना है।

क्यालकर्ता / सह-वयारंकर्ता / गारंतर / बंधकवर्ता को एतद द्वारा उपयुंक्त राशि का मुख्यान नीलानी से पहले व्याज और सहायक य्यय के साथ करने के लिए अधिसुधित किया जाता है, एस न होने पर उपय उत्तरविदत बंधक संपत्ति की निलामी हमी और यथि बक्या गई शिक्ष हुई तो ज्याज / नामत के साथ असूल किया आपना अपने नेक लिए निर्धारित दिनांक पर नीलामी बिक्री में कोई बीली प्राप्त गहीं. होती है, प्रत्यानुष वज्याता को किसी में संगत के साथ असूल किया आपना अपने नेक लिए निर्धारित देनांक पर नीलामी बिक्री में कोई बीली प्राप्त गहीं. होती है, प्रत्यानुष वज्याता को किसी में संगत को किसी में क्यत निर्धारित जरबित मुख्य पर या उत्तरी पहले निजी संग्रिय के माध्यम से इस संपत्ति को बेचने की स्वता होगी।

उससे पहला लाजा साढ़ कमाठवम सड़से संपाप का बचन का स्वतंत्रता होगी। उभारवला/संहर-जयारवलांजी/गारंटरो/बंधवकरांठी से वहा जाता है कि वे इस सूचना की दिनांक से 7 (सात) दिनों के मीतर बंधक रखी बई संपत्ति का यवजा लेने के समय तैयार धंवनामा/इन्हेंद्री रिपोर्ट के अनुसार, यदि जवत की पहुं संपत्ति पर कुछ भी मौजूद है, **तो सभी घरेलू करतुओं/व्यक्तिगत लामजर्मों को स्थानांतरित/हटा वे** इस सूचना की दिनांक से 1 (सात) दिनों की नियारित अर्थाय के मौतर चरेलू बरतुओं/व्यक्तिगत लामानों को बाजानांतरित करने म उधारवर्ता/सह-जयारकर्ताजी/गारंटरी/बंधवकर्ताजी के जोखिम, जिम्मेदारियों और लागत पर ''जो है जहां है, जो हे जैसा है, और वहां जो मी है लाघार'' पर उसे इटाने/स्थानांतरित करने/निपदान करने के लिए बाध्य होगी कंपनी इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा उत्तार पर किसी भी यहां के लिए जिन्मेदार रही होगी।

201 2010		क्यान : दिल्ली, दिनांक : 06.06.2023	प्राधिकृत अधिकारी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	इंजीएम की सूचना
धनी त	प्राधिकृत अधिकारी नोन्स एंड सर्विसेस लिमिटेड		डिमांड नोटिस जारी करने के बाद यदि कोई राशि जारी की जाती है, काया राशि का पता लगाने के लिए गिना जाएगा।	
				स्वलक्ष्यवाणा उसी संघ

DBI BANK	आईडीबीआई	बैंक	लिमिटेड
----------	----------	------	---------

रिटेल रिकवरी, पृथ्वीराज रोड, जयपुर, डी—24 दुर्लम निवास, पृथ्वीराज रोड, सी स्कीम, जयपुर, पिनः 302001, राजस्थान

प्रामिकृत अभिवर्ग्स, आईटीबीआई बैंक सिमिटेट

#### वित्तीय परिसंपतिर्सी के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्गिर्भाज तथा प्रतिमूति हित प्रयर्तन अधिगियम 2002 के अंतर्भत अचछ परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-बीखामी विक्रय सूचना, जो 22-06-2023 को मध्याद्व 11.00 से देपहर 12.00 बजे तक आयोजित किया जाना है

एपदहारा सर्वसमारण को तथा विवेष रूप में उपारकरती(वों) एवं पाररीवर्ता(वों) को सुचित किया जाता कि निमा विवर्तित अपल संपतियां/ प्रतिष्ठत अण्यदता (कईदीवीआई बैक लिपिटेट) के पास कवकवुत/प्रभारित है। वबकि वितीय परिपतिय के प्रतिष्ठतिकरण एवं पुनर्तिमीण तथा प्रतिष्ठति के विवेष मान 2002 की पारा 13(2) के बंदगेत, प्रापिकृत अध्यक्त के समय निमा दिये गये विवरणों के अनुसार उपारकर्ताओं/ गारत्ते/काकवर्ताओं/ मार देश स्वक कर में भदर्षित) से संप्रियों को बहुतों के लिये मान कुलन की विवर्ध को प्रतिष्ठतियों के प्रतिष्ठतियां प्रतिष्ठति के समय निमा दिये गये विवरणों के अनुसार उपारकर्ताओं/ गारत्ते/कावर्ता/ का देश संपत्र स्वक कर में भदर्षित) से संप्रियों को बहुतों के लिये मान को है। इसने बाद वितीय परिवर्धातीय के प्रतिष्ठतियां प्रतिष्ठति कावित्रण के अनुसार उपारकर्ताओं/ मारत्ते/कावर्य, विवरणते के प्रतिष्ठति से संपत्र प्रतिष्ठ परिवर्धातीय को बहुती के लिये मान सूचना निर्मत की है। इसने बाद वितर्यिय परिवर्धानी के प्रतिष्ठतियों के संपत्र स्वतियों के प्रतिष्ठति के कि मान दूस स्वक वाद उपारकर्ताओं के प्रतिष्ठ परिवर्ध को बहुती के लिये मान सूचना निर्मत की है। इसने बाद वितर्यिय परिवर्धतियों के प्रतिष्ठतियों के प्रतिष्ठतियों के प्रतिक्रीतियों के संपत्रियों के प्रतिक्रिय के दिन से मान स्वर्धका की कि सार्व कि लिपिटेड परिवर्धतियों से बीविक/ सार्ववर्धा कर लिया है। इसने बाद वितर्य के प्रतिष्ठतियों से **आईदीवीकाई कैलिपिटेड** को देव-मुगेय प्रतिक्रा और इन पर शार्थी व्याव, ऋणवशियों पर बैक हारा चएका लागती एवं शुल्ली वहालिया परिवर्ध कोई पटाकल, की वसूती को कि मार्वतिक प्रतिष्ठ प्रतिक्रों के विक्रा किया जाता है। इस तेतु स्वर्धकारण को जाववित्रा किया जोता की के या तो व्यक्तियों से मार्क्त के सार्व वहालियों को दे कोई पटाकल, की बहुती के तिये मानो के माल्यम से प्रतिष्ठत वार्विवर्ध की किया जाता है। इस तेतु सार्व वहालियों को देश्वत करे।

1		55 V	0		प्रतिमूत परिस	परितयों के वि	क्रय की जनुस्	ची	14	10 V		76
क सं	उम्रारकर्ता/ नारंटर का नाम	मांग सूथना की तिथि तथा वहां उत्तमें अंकित बकाया चरित	प्रतिम्पूत परिसंपत्तियों का विवरण	अभिवाण वी स्थिति (भौतिक अभया सांकेतिक)	अभिव्रहण की तिथि	आरमित मूल्य	घरोहर राति जमा (पराज) राति	घराज जम्म की त्वतिम तिथि	विस्तमें आश्टीजीएस/ एनईएफटी/काईएफएससी कोड के माध्यम से प्रराज जमा की जानी है. चस खादा के विवरण	संपतित के निरीक्षण की तिथि एवं समय	वृद्धिशील बोसीदान	भोडल अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा संपर्क नं
1	अगीता जैन	30.07.2021 एवं क 34,66,166.88	मूखड सं. 4, जो खसरा सं. 828/1 - 829 (अधिमापन 48.68 वर्ग गज) लिंक रोड, कृषि मंडी, संबद्धं माजीपुर, राजस्थान में लिंबत है।	শাঁৱিক	22.88.2022	1). 55,00,000/-	रू 5,50,000/-	21.06.2023	"खाता संख्या १४७०३७०००१००५२ नामः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड IFSC कोड 18KL0001478"	संभावित क्रेतागण अपने आप विजिट कर सकते हैं।	फ. 25,000/-	डा. जे.पी. परिश एव की संदीय के सैनी: 8527430989

सरफोएसि अपिनियम 9(1) एवं 8(6) के अंतर्गत 15/30 दिवसीय सार्वियिक विक्रंथ सूचना जवारकर्ता/गारंटतें को एतद्वारा अभियुधित किया जाता है कि वे ई-नीलानी की तिथि से पूर्व अवतन व्याज एवं आनुषनिक व्ययों के साथ जयांकितानुसार बकाया राशि का चुनतान कर दे। मुगतान करने ने विफल साने पर संपति की नीलानी/विजय कर दिया जावेगा तथा शेष देयराशियों, यदि कोई श्रेष निकलती हो, की वसूली व्याज एवं लागतों सहित की जावेगी। असाधारण आम बैठक की सूचना और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

एतपुद्धारा सूचना दी जाती है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 7यी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुध्यार, 28 जून, 2023 को पूर्वा, 11:30 चर्ज (अइंएसटी), वैडिया कॉन्फ्रोन्सिन ('वीनी') के माध्यम से, इंजीएम को सूचना में सूचीखद्ध वायसायों के निष्पादन हेतु आवोजित की जाएगी। यह इंजीएम कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और तक्पीन विरिधेत नियमों तथा सेवी (यूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 (सूचीयन विनियमावली) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 वनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 33/2020 पिनांकित 28 सिंहम्बर, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, जनरल सर्कुलर नंबर 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 10/2022 दिनांकित 28 सिंहम्बर, 2022, जनरल सर्कुलर नंबर 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, जनरल सर्कुलर नंबर 22/2020 दिनांकित 5 मई, 2022 तिवांकित नंक प्रवंधानों के अनुपालन में सदस्यों की कित्ती एक ख्वान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडिया ठॉन्फ्रेस्थ ('वीती') के माध्यम से संचालन हेतु आयोजित की जाएगी।

त्यवा एमसीए सर्वुलर्स के अनुप्रलन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिया 05 जून, 2023 को उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनकी ई—मेल आईडी ज कम्यनी ∕ बियॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के पास 02 जून, 2023 को (कार्य समापि के समय पर) पंजीबढ़ है। कृपया नोट करें कि सदस्यों को ईजीएम की सूचना की मीतिक प्रतियां मेजने की आवश्यकता, एमसीए सर्कुलर्स द्वारा समापा कर दी गई है। ठवत सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.plcindia.com</u> मर, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ई—वीटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एजेन्सी, की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर तथा स्टॉक एक्सचेऊेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com जेर www.nseindia.com

सदस्यगण, जिनके शेयर भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तथा जिनका ई-मेल पता कम्पनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अपना ई-मेल पता यथाशीघ सदस्य(यों) द्वारा विधिवत हस्कारित पत्र की स्कैन प्रति अपने नाम, पूर्ण पता, फोलियो नंबर, कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या के उल्लेख के साथ पैन कार्ड की स्व-सल्यापित रुकैन प्रति और निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल अथया कम्पनी में पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्व-सल्यापित स्कैन प्रति ई-द्वारा cs@plcindia.com को भेजने का अनुरोध किया जाता है। सवरचगण, जिनके शेयर अभौतिक रूप में हैं, वे अपना ई-नेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत करवा सकते हैं। सदस्यगण ईजीएम की सूचना प्राप्त करने क्ष लिए अपना ई-मेल अनुरोध ई-मेल आईडी cs@ptcindia.com पर भी भेज सकते हैं।

ईजीएम की सूचना में उस विधि के संबंध में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं. जिसमें कि सदस्य अपना ई—मेल पता पत्सीबद्ध करवा सकते हैं तथा अपना चोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अधवा ईजीएम के समय ई—वोटिंग द्वारा ढाल सकते हैं तथा बीसी के माध्यम से ईजीएम से जुढ़ सकते हैं, जोकि कम्पनी/एनएसडीएल/स्टींक एक्सचेंजेज, वपरिसंदर्मित अनुसार, की वेबसाइट्स पर उपलब्ध है।

सदस्यगण, जो कट–ऑफ तिथि अर्थात 21 जून, 2023 को, भौतिक या अमौतिक रूप में शेयरों के धारक है, इंजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी विशेष व्यवसायों पर अपना चोट एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से खाल सकते है। सभी सदस्यों को सूचित किवा जाता है कि :

- रिमोट ई–वोटिंग 25 जून, 2023 को पूर्वा, 89.00 बजे (आईएसटी) आरंग होगी ;
- रिमोट ई--वोटिंग 27 जून, 2023 को अप. 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी.
- कोई व्यक्ति, जो कट—ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे ;
- 5. कोई व्यक्ति, जो ईलीएम की सूचमा के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के क्षेयरों का अर्जन करता है तथा कम्पनी का सारस्य बनता है और शेयरों का धारक है तथा योट डालने हेंतु याडा है, वह ईजीएम की सूचना में दी गई लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई–वॉटिंग के लिए एनएसडीएल में पडले से पंजीकृत है, तो विद्यमान युजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग बोट डालने के लिए किया जा सकता है ;

सदस्यगण नोट करें कि

- क) एनएसक्षीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग माडवूल, उपरोक्त तिथि और लमय के बाद, योटिंग के लिए निक्रिय कर दिया जाएगा लया किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार बोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ;
- (a) जो सदस्य ईजीएम से पहने रिमोट ई—योटिंग द्वारा पोट डाल चुके हैं, वे ईजीएम में मांग ले सकते हैं, परंतु उनको पुनः योट डालने का अधिकार नहीं होगा , ग) ईजीएम में इलेक्ट्रोंनिक विधि द्वारा योट डालने की सुविधा जपलब कराई जाएगी , तथा
- म) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट--ऑफ लिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई--वोटिंग जयवा ईजीएन में ई--वोटिंग सुविवा प्राप्त करने का हकदार होगा।

किसी पूछताछ की रिवर्ति में, जिसमें रिमोट ई—वोटिंग तथा ईजीएम में वोटिंग के साथ संबंधित मुंदूरे और विताएं हामिल हैं, आप www.evoling.nsdi.com के डाउनलोड संवयन में उपलब्ध शेयरवारकों के लिए कीवयेटली आरक्ष व्येष्टयन्स (एकएक्यू ज) तथा शेयरवारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा सुभी पल्लबी महात्रे को <u>evoling@nsdi.co.in</u> पर अथवा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटले लिमिटेड, ट्रंड बर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअप परेल, मुंबई—400013 को अनुरोध मेजें अथवा टेलीकॉन नंबर +91 22 2499 7000, +91 22 4888 7000 पर कॉल करें जिनके द्वारा इलेक्टोंनिक साबनों द्वारा वोटिंग के साथ सभी शिकायतों का नियारण किया जाएगा।

3 1000	191 22 4888 7000	भर काल कर जिनक शारा है।	लक्ट्रानिक संधिना द्वारा	वहटन के साथ समा	शवल्यता का ल्यारण	ाकया च	46414
					बोर्ड	के आ	देश द्वारा
					वास्ते पीटीसी इ	डिया	लिमिटेड

तिथि : 06 जून, 2023	हरता /— (राजीव माहेश्वरी) कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली	एफसीएस 4998

दिनांक : 06-06-2023, स्थान : जयपुर

दिनांक : 31.05.2023

स्थान : नई दिल्ली